

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994

प्रलिस के लिये: गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994, प्रसव पूर्व नदिन तकनीक

मेन्स के लिये: प्रसवपूर्व नदिन और लगी-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित नैतिक एवं कानूनी मुद्दे, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994 के प्रावधान, उद्देश्य, भारत में लगी-चयन गर्भपात के अभ्यास को रोकने में इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने टपिणी की है कि PCPNDT के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये [गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक](#) (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques- PCPNDT) अधिनियम के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश PCPNDT अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक [प्राथमिकी](#) को रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

PCPNDT अधिनियम:

परिचय:

- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नदिन तकनीक अधिनियम, 1994 भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गरिब [लगानुपात](#) को रोकने, प्रसवपूर्व लगी चयन को प्रतिबंधित करने लिये अधिनियमित किया गया था।

उद्देश्य:

- इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लगी चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लगी-चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है।

प्रावधान:

- यह अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे- प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों के उपयोग को वनियमित करता है और इस प्रकार की मशीनों को केवल आनुवंशिक असामान्यताओं, चयापचय संबंधी विकार, क्रोमोसोमल असामान्यताओं, कुछ जन्मजात विकृतियों, हीमोग्लोबिनोपैथी तथा लगी संबंधी विकार का पता लगाने के लिये उपयोग में लाने की अनुमति देता है।
- भ्रूण के लगी का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला या केंद्र अथवा क्लिनिक अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण किया जाना निषिद्ध है।
- अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के प्रयोग से व्यक्ति द्वारा गर्भवती महिला अथवा उसके रश्तेदारों को शब्दों, संकेतों अथवा किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लगी की जानकारी देना निषिद्ध है।
- कोई भी व्यक्ति जो नोटिस, सर्कुलर, लेबल अथवा किसी दस्तावेज के रूप में प्रसवपूर्व और गर्भधारण पूर्व लगी चयन संबंधी सुविधाओं का विज्ञापन देता है या फरि इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट रूप में अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापित करता है, ऐसे व्यक्ति, संस्थान या केंद्र के संचालक को तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध:

- इस अधिनियम के तहत अपंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व नदिन तकनीकों का उपयोग करना एक अपराध है।
- इस अधिनियम के तहत लगी चयन निषिद्ध है।
- इस अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रसवपूर्व नदिन तकनीक का इस्तेमाल करना अपराध है।
- इस अधिनियम के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन अथवा भ्रूण लगी का पता लगाने में सक्षम किसी भी अन्य उपकरण की बिक्री, वितरण, आपूर्ति, करिए पर लेना आदि निषिद्ध है।

लगी-चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ पहल:

■ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:

- यह अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य **लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के असतृप्तता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना** तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है।

■ बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016:

- यह बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिये प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में लिंग-पक्षपाती लिंग चयन के उन्मूलन की दिशा में कार्य करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की चर्चा का विषय:

■ छापे और बरामदगी में पुलिस की भागीदारी की व्यावहारिकता:

- न्यायालय ने कहा कि हालाँकि PCPNDT नियमों में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि "जहाँ तक संभव हो" पुलिस छापेमारी, जब्ती आदि में शामिल न हो, लेकिन इस पहलू की व्यावहारिकता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी कार्रवाई सुविधा केंद्रों/क्लीनिकों पर छापे मारने के लिये CrPC के अनुसार होनी चाहिये"।

■ जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियाँ:

- न्यायालय ने पाया कि अधिपति उपयुक्त प्राधिकारी को PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा केंद्रों और सुविधाओं के पंजीकरण की जाँच करने तथा छापेमारी, रद्द या नलिंबति करने की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उसके पास इस अधिनियम के तहत किसी को भी गरिफ्तार करने की शक्ति नहीं है।

- इस अधिनियम के तहत अपराधों को 'संज्ञेय' बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस गरिफ्तारी कर सकती है।
- हालाँकि न्यायालय ने अधिनियम को लागू करने में उपयुक्त प्राधिकरण की भूमिका की प्रभावशीलता के बारे में चर्चा जताई क्योंकि उसके पास गरिफ्तारी की शक्ति नहीं है।

■ सज़ा की कम दर:

- कम दोषसिद्धि दर उन मामलों के प्रतिफलित करती है जिनमें अभियुक्त दोषी पाए जाते हैं और उस अपराध हेतु दोषी पाए जाते हैं जिसके लिये उन्हें आरोपित किया गया था।
- PCPNDT अधिनियम के संदर्भ में इसका मतलब है कि वास्तव में अधिनियम के प्राधानों का उल्लंघन करने के लिये दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है।
- यह अपराधियों पर प्रभावी दंड से मुकदमा चलाने और लिंग-चयन गर्भपात के अवैध अभ्यास को रोकने के लिये न्याय प्रणाली की वफिलता को इंगित करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के नहितार्थ:

■ पुलिस की जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियों पर स्पष्टता:

- न्यायालय द्वारा उठाई गई चर्चाओं ने अधिनियम को लागू करने में पुलिस की भूमिका के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकारियों में नहित जाँच और गरिफ्तारी की शक्तियों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

■ दोषसिद्धि दर में वृद्धि:

- PCPNDT अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की कम दर एक सतत चुनौती रही है और अदालत की टिप्पणी लिंग-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद कर सकती है।

प्रसवपूर्व नदिन और लिंग-चयनात्मक गर्भपात से जुड़े नैतिक मुद्दे :

■ अधिकारों और मानवीय गरमि का उल्लंघन: लिंग-चयनात्मक गर्भपात लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के खिलाफ हिसा का एक रूप है जो उनके जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

- यह मानव जीवन के मूल्य और गरमि तथा मानव समाज की विविधता को भी कमजोर करता है।

■ सामाजिक समस्याओं में वृद्धि: समाज पर इसके प्रतिफलित परणाम देखे जाते हैं जैसे- विषम लिंगानुपात, बढ़ती तस्करी और महिलाओं के खिलाफ हिसा, पुरुषों के लिये विवाह की संभावनाएँ कम होना आदि।

- यह गैर-चिकित्सा उद्देश्यों के लिये प्रसवपूर्व नदिन के उपयोग और अजनमे बच्चे के प्रतिमाता-पति और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की ज़िम्मेदारी को लेकर नैतिक प्रश्न भी उठाता है।

■ हेल्थकेयर तक पहुँच: प्रसवपूर्व नदिन और लिंग-चयनात्मक गर्भपात मौजूदा स्वास्थ्य असमानता और अन्य असमानताओं को बढ़ा सकता है, विशेष

रूप से हाशयि पर रहने वाले उन समुदायों के लयि जनिकी स्वास्थय सेवा और जानकारी तक सीमति पहुँच हो सकती है ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न:

2012/2012:

प्रश्न. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करेंगे जो दिखाते हैं क अनुसूचति जातयों के बीच लगानुपात की तुलना में भारत में जनजातयों में लगानुपात महिलाओं के लयि अधकि अनुकूल है? (2015)

[स्रोत: द हदि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pre-conception-and-pre-natal-diagnostic-techniques-pcpndt-act-1994>

